

@Shajahanpurpol

प्रेस नोट: सराहनीय कार्य 07.09.2022

\*थाना जैतीपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी\*

अंतर्राष्ट्रीय बाजार मे लगभग 50 लाख रूपये कीमत की 500 ग्राम (फाइन क्वालिटी) की अफीम व 5 किलो 500 ग्राम डोडा चूर्ण अंतर्राज्यीय बाजार मे लगभग 02 लाख रूपये कीमत सहित 02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार ।

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद मे अपराध की रोकथाम व अवैध शराब एवं अवैध शस्त्र , मादक पदार्थ का कारोबार करने वाले क्रियाशील एवं चिन्हित किये गये अपराधियो , वाछित एवं वारंटी, अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी एवं अपराध की रोकथाम के परिपेक्ष्य मे प्रचलित अभियान के क्रम मे श्री संजीव कुमार वाजपेयी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं श्री बी0एस0 वीर कुमार क्षेत्राधिकारी तिलहर के पर्यवेक्षण मे थाना जैतीपुर पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई ।

दिनांक 06.09.2022 की रात्रि 23.10 बजे IC थाना प्रभारी श्री राकेश कुमार मौर्य के नेतृत्व मे थाना जैतीपुर की पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति वस्तु वाहन चैकिंग के दौरान ग्राम मरुआझाला मढी से बनखण्डी पुलिया की ओर करीब 50 कदम दूर पर 02 मादक पदार्थ तस्कर 1- कामिल 2- मुस्तफा अहमद को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार शुदा अभियुक्त कामिल पुत्र शराफत हुसैन उपरोक्त के कब्जे से 05 किलो 500 ग्राम डोडा चूर्ण बरामद हुआ तथा अभियुक्त मुस्तफा अहमद पुत्र इसरत अली उपरोक्त के कब्जे से 500 ग्राम अफीम फाईन क्वालिटी बरामद हुयी । गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना जैतीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- 1-मुस्तफा अहमद पुत्र इसरत अली निवासी मोहल्ला अंसारी वार्ड न0 10 कस्बा व थाना अलापुर जनपद बदाँयू
- 2-कामिल पुत्र शराफत हुसैन निवासी मोहल्ला अंसारी वार्ड न0 10 कस्बा व थाना अलापुर जनपद बदाँयू

बरामदगी का विवरण:-

- 1-500 ग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम ( अंतर्राष्ट्रीय बाजार मे अनुमानित कीमत 50 लाख रूपये )
- 2-05 किलो 500 ग्राम डोडा चूर्ण

पंजीकृत अभियोगो का विवरण

1. मु0अ0स0 - 482/2022 धारा 8/15 NDPS ACT थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर बनाम कामिल उपरोक्त
2. मु0अ0स0 - 483/2022 धारा 8/18 NDPS ACT थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर बनाम मुस्तफा उपरोक्त

## पूछताछ विवरण

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त कामिल ने बताया कि डोडा चूर्ण पंजाब व उत्तर प्रदेश के बाराबंकी व आसपास के जनपदों से सस्ते दामों में किसानों से डोडा चूर्ण लाता हूँ जनपद बदायूँ , जनपद बरेली , जनपद शाहजहाँपुर के आस पास के ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे दामों में लोगों को विक्रय कर देता हूँ इससे पहले मैं कभी पकड़ा नहीं गया हूँ चोरी छिपे डोडा चूर्ण को ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों को अच्छे दामों में बेचता रहता था ।

अभियुक्त मुस्तफा अहमद ने बताया कि झारखण्ड से ट्रेन के माध्यम से सस्ते दामों में अफीम लाता हूँ और मैं स्टेशन पर पहुँचकर रोड के माध्यम से अपने घर पर आ जाता हूँ तथा जनपद बदायूँ , जनपद बरेली, जनपद शाहजहाँपुर के आस पास के ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे दामों में लोगों को विक्रय कर देता हूँ । पूछताछ के दौरान प्रकाश में आये तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

## गिरफ्तार करने वाली टीम

1. IC थाना प्रभारी श्री राकेश कुमार मौर्य थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
2. उ०नि० श्री संजीव कुमार थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
3. का० 1804 अनुज प्रताप थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
4. का० 2300 अंकित नेहरा थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
5. का० 2685 प्रवीण शर्मा, थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
6. का० 2314 निशान्त थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
7. का० 1963 लोकेन्द्र थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर